

चीन-ताइवान संघर्ष

यह एडिटरियल 28/03/2024 को 'द हट्टि' में प्रकाशित ["Preventing a China-Taiwan conflict"](#) लेख पर आधारित है। इसमें ताइवान जैसी सुदूर एशियाई सीमाओं पर विवादों में भारत की संलग्नता की पड़ताल की गई है, जहाँ भारत का लक्ष्य संघर्ष की वृद्धि को रोकना है। चीन ताइवान पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है और सक्रिय रूप से इस द्वीप के संभावित बलपूर्वक अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है, जबकि अमेरिका ने ताइवान का समर्थन एवं बचाव करने के प्रति अपनी बढ़ती तत्परता प्रकट की है।

प्रलमिस के लिये:

[चीन-ताइवान संघर्ष](#), [दक्षिण चीन सागर](#), [ताइवान संबंध अधिनियम, 1979](#), ['वन-चाइना' नीति](#), [फिलीपींस](#), [भारत की 'एक्ट ईस्ट' वदेश नीति](#)।

मेन्स के लिये:

भारत के लिये ताइवान का महत्त्व, ताइवान मुद्दे पर भारत का रुख।

चीन द्वारा [ताइवान](#) पर अपनी संप्रभुता का दावा करना जारी है, जहाँ वह इसे अपने भूभाग के एक अंग के रूप में देखता है और यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक मुख्य भूमि में इसके पुनः एकीकरण पर बल देता है। इस क्रम में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें [ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र \(ADIZ\)](#) में नियमिती हवाई एवं नौसैनिकी घुसपैठ करना भी शामिल है। चीन की बढ़ती मुखरता की प्रतिक्रिया में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और हथियारों की बिक्री एवं सैन्य सहयोग सहित अपना समर्थन बढ़ाया है।

दूसरी ओर, ताइवान अपनी अलग पहचान और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखना चाहता है, जहाँ इसकी अधिकांश आबादी वास्तविक स्वतंत्रता की यथास्थिति का समर्थन करती है। ताइवान ने चीन की सैन्य धमकियों के जवाब में अपनी सुरक्षा मजबूत की है और अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति एवं साझेदारियों को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है।

चीन-ताइवान संघर्ष का वर्तमान संदर्भ क्या है?

ऐतिहासिक संदर्भ:

- [ताइवान चिंग राजवंश \(Qing dynasty\)](#) के दौरान चीन के नियंत्रण में आ गया था लेकिन वर्ष 1895 में चीन-जापान युद्ध में चीन की हार के बाद यह जापान के नियंत्रण में आ गया।
- [द्वितीय विश्व युद्ध](#) में जापान की हार के बाद वर्ष 1945 में चीन ने ताइवान पर फरि से कब्जा कर लिया, लेकिन राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच छिड़े गृहयुद्ध के कारण वर्ष 1949 में राष्ट्रवादियों ने भागकर ताइवान में शरण ली।
- ताइवान मुद्दे की जड़ें [नेशनलसिट पार्टी \(कुओमिन्तांग\)](#) और [कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना \(CPC\)](#) के बीच चले गृह युद्ध (1927-1950) में देखी जा सकती हैं।
- वर्ष 1949 में कम्युनिस्टों की जीत के बाद राष्ट्रवादी सरकार ताइवान में शरण लेने के लिये विदेश हुई और वहाँ [रिपब्लिक ऑफ चाइना \(ROC\)](#) की स्थापना की, जबकि CPC ने मुख्य भूमि पर [पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना \(PRC\)](#) की स्थापना की घोषणा की।

'वन-चाइना' नीति:

- PRC और ROC दोनों ही संपूर्ण चीन की वैध सरकार का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। PRC ताइवान पर संप्रभुता का दावा करता है और इस बात पर बल देता है कि केवल एक चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। ['वन-चाइना' नीति \(One-China Policy\)](#) में यह दृष्टिकोण समाहित है।

•••• First island chain



//

■ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता:

- संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देश PRC को चीन की वैध सरकार के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं और वन-चाइना नीतिको स्वीकार करते हैं।
- हालाँकि, आधिकारिक तौर पर ताइवान की संप्रभुता को मान्यता दिए बिना, मुख्यतः आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के रूप में ताइवान के साथ उनका अनौपचारिक संबंध बना रहा है।

■ ताइवान की पहचान:

- ताइवान ने दशकों से अपनी स्वयं की सरकार, संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ अपनी एक अलग पहचान विकसित की है। कई ताइवानी लोग स्वयं को चीनी के बजाय ताइवानी के रूप में चिह्नित करते हैं।

■ 'क्रॉस-स्ट्रेट' संबंध:

- गुज़रते वर्षों में ताइवान और मुख्य भूमि चीन के बीच संबंधों में उतार-चढ़ाव आता रहा है। उनके संबंधों में तनाव और शत्रुता के दौर आए हैं तो साथ ही, विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र, में गैर-शत्रुता और सहयोग के दौर भी आए हैं।

■ सैन्य धमकियाँ:

- चीन ने शांतपूर्ण उपाय विफल होने पर ताइवान को मुख्य भूमि के साथ फरि से जोड़ने के लिये बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया है। उसने अपनी नौसेना और मिसाइल बलों के निर्माण सहित अपनी सैन्य क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है, जिससे ताइवान और क्षेत्र के अन्य देशों के लिये चिंताओं की वृद्धि हुई है।


■ अंतरराष्ट्रीय समुदाय:

- ताइवान का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। विभिन्न देश चीन के साथ अपने संबंधों और ताइवान की सुरक्षा एवं लोकतंत्र के लिये अपने समर्थन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।

ताइवान का सामरिक महत्त्व:

■ भू-राजनीतिक अवस्थिति:

- ताइवान पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन, जापान और फिलीपींस के नजिक रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। इसकी अवस्थिति दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण चीन सागर के लिये एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार प्रदान करती है, जो वैश्विक व्यापार एवं सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।



■ सैन्य महत्त्व:

- मुख्य भूमि चीन से ताइवान की नजिकता इसे चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों, दोनों के लिये सैन्य योजना में एक महत्त्वपूर्ण कारक बनाती है।
- ताइवान पर नियंत्रण से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शित करने की चीन की क्षमता बढ़ेगी और संभावित रूप से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों के लिये खतरा उत्पन्न होगा।

■ आर्थिक महत्त्व:

- ताइवान वैश्विक बाजार में, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में, एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी है।
- इसकी अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, जो इसे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है। ताइवान विश्व के 60% से अधिक सेमीकंडक्टर और 90% से अधिक सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है।

वर्तमान समय में चीन-ताइवान संघर्ष के विभिन्न पहलू कौन-से हैं?

■ चीन की चतारें:

○ वन-चाइना नीतिको चुनौती:

- इसका अभिप्राय यह है कि मुख्य भूमि चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के साथ राजनयिक संबंध चाहने वाले देशों को ताइवान के रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC) के साथ आधिकारिक संबंध तोड़ने होंगे, जबकि ROC के साथ राजनयिक संबंध

- चाहने वाले देशों को PRC के साथ संबंध तोड़ने होंगे ।
- ताइवान के मौजूदा राजनयिक संबंध और अंतर-सरकारी संगठनों में उसकी सदस्यता वन-चाइना नीतिको चुनौती देती है:
- ताइवान के ROC के 15 देशों के साथ राजनयिक संबंध हैं और जबकि वह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के देशों, जापान और न्यूजीलैंड जैसे कई अन्य देशों के साथ भी ठोस संबंध रखता है ।
- चीन का मुकाबला करने के लिये समझौते और सैन्य अभ्यास:**
 - अमेरिका ने हृदि-प्रशांत के लिये ऑस्ट्रेलिया, **यू.के. और यू.एस. (AUKUS)** के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की है, जसि चीन का मुकाबला करने के एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है ।
 - मालाबार अभ्यास** (अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया) भी एक स्थायी हृदि-प्रशांत गठबंधन के नरिमाण की दशा में एक बड़ा कदम है, ताकि आर्थिक एवं सैन्य रूप से शक्तिशाली चीन द्वारा उत्पन्न बड़े पैमाने के रणनीतिक असंतुलन को संबोधित किया जा सके ।
- अमेरिका द्वारा ताइवान को सामरिक और रक्षा सहायता:**
 - ताइवान ने उन्नत F-16 लड़ाकू जेट, सशस्त्र ड्रोन, रॉकेट ससि्टम और हारपून मिसाइलों सहित विभिन्न अमेरिकी हथियारों की खरीद के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया है ।
 - युद्धपोत थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में एक अमेरिकी विमान वाहक समूह ने समुद्र की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली साझेदारी के नरिमाण के लिये दक्षिण चीन सागर में प्रवेश किया है ।
- मुद्दे पर भारत का रुख:**
 - वन-चाइना नीतिको मान्यता:**
 - वर्ष 1949 से ही भारत वन-चाइना नीतिको मान्यता देता रहा है जहाँ ताइवान और तब्बत को चीन के अंग के रूप में स्वीकार करता है ।
 - हालाँकि, भारत इस नीतिको उपयोग एक कूटनीतिक तरक के नरिमाण के लिये करता है, अर्थात, यदि भारत 'वन-चाइना' नीति में विश्वास करता है तो चीन को भी 'वन-इंडिया' नीति में विश्वास करना चाहिये ।
 - राजनयिक संबंध आरंभ करना:**
 - भले ही भारत ने वर्ष 2010 से संयुक्त वक्तव्यों और आधिकारिक दस्तावेजों में वन-चाइना नीतिके पालन का उल्लेख करना बंद कर दिया है, लेकिन चीन के साथ संबंधों के ढाँचे के कारण ताइवान के साथ इसकी संलग्नता अभी भी सीमिति है ।
 - भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं लेकिन वर्ष 1995 से दोनों पक्षों ने एक-दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय बना रखे हैं जो वास्तविक दूतावासों के रूप में कार्य करते हैं ।
 - भारत में तीसरा TECC केंद्र खोलना:**
 - ताइवान ने भारत में, विशेष रूप से मुंबई में, अपना तीसरा प्रतिनिधि ताइपे आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र (Taipei Economic and Cultural Centre- TECC) खोलने की योजना की घोषणा की है ।
 - यह कदम, जसिमें TECC की स्थापना शामिल है, ताइवान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर लक्षित है ।
- ताइवान पर अमेरिका बनाम चीन:**
 - चीन की सरकार ने वर्ष 2005 में एक अलगाव-वरोधी कानून पारित किया, जो ऐसी शर्तें प्रदान करता है जसिके तहत चीन ताइवान को मुख्य भूमि चीन से स्थायी रूप से अलग होने से रोकने के लिये गैर-शांतपूरण साधन अपना सकता है ।
 - दूसरी ओर, **ताइवान संबंध अधिनियम (Taiwan Relations Act- TRA), 1979** के तहत ताइवान पर चीन द्वारा दबाव बढ़ाने या आक्रमण करने की स्थिति में अमेरिका ताइवान की सहायता करने के लिये बाध्य है ।
 - अमेरिका का रुख:** हाल की चीनी घुसपैठ और उस पर अमेरिका का वरोध ताइवान पर अमेरिका और चीन के इस वरोधाभासी रुख की अभिव्यक्ति है ।
 - इसने चीन से ताइवान के वरिद्ध अपना सैन्य, राजनयिक एवं आर्थिक दबाव बंद करने और इसके बजाय ताइवान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के साथ सार्थक संवाद आगे बढ़ाने का आग्रह किया है ।
- हाल की प्रगत:**
 - वर्ष 2016 में राष्ट्रपतिके रूप में त्साई इंग-वेन (Tsai Ing-wen) के नरिवाचन के साथ ताइवान में एक तीव्र स्वतंत्रता-समर्थक चरण की शुरुआत हुई जो वर्ष 2020 में उनके पुनः नरिवाचति होने से और प्रखर हो गया ।
 - ताइवान अब चीन में नविश सहति महत्त्वपूर्ण आर्थिक हति रखता है । स्वतंत्रता-समर्थक समूहों को चति है कियह आर्थिक नरिभरता उनके लक्ष्यों में बाधा बन सकती है ।
 - ताइवान के साथ-साथ चीन में भी पुनः एकीकरण के समर्थक समूहों को उम्मीद है किलोगों के बीच बढ़ते परस्पर संपर्कों से अंततः स्वतंत्रता समर्थक लॉबी की स्थिति किमज़ोर होगी ।

भारत क्यों नहीं चाहता कि संघर्ष बढ़े?

- व्यापारिक और आर्थिक चिंताएँ:**
 - भारत और ताइवान के व्यापार में वर्ष 2001 के बाद से सात गुना वृद्धि हुई है और वे एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते की तलाश कर रहे हैं । ताइवानी फर्म 'पावरचिपि सेमीकंडक्टर मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन' ने भारत के पहले सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के नरिमाण के लिये टाटा समूह के साथ साझेदारी की है ।
 - भारतीय कामगारों को ताइवान भेजने के लिये हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए । भारतीय उद्योग, महत्त्वपूर्ण आपूर्ति शृंखलाएँ और प्रवासी आबादी सभी ताइवान स्ट्रेट में स्थायी शांतपूरण यथास्थिति में अपना हति देखते हैं ।
- युद्ध के कारण व्यवधान:**
 - ताइवान के वरिद्ध कोई भी चीनी आक्रामकता भारत के लिये अत्यंत नुकसानदेह सिद्ध होगी । ऐसा परदृश्य वस्तुतः चीन और ताइवान के

साथ वैश्विक व्यापार को बाधित कर देगा, जो पूरे एशिया और पश्चिम एशिया में व्यवधान उत्पन्न करेगा।

- ब्लूमबर्ग के एक हालिया अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि इस संघर्ष की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 10% से अधिक होगी। भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा झटका लगेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक इसके सबसे मूल्यवान क्षेत्रों में घटकों एवं सामग्रियों की कमी हो जाएगी।

■ सीमाओं के पार 'स्पलि-ओवर इफ़ेक्ट':

- चीन और अमेरिका के बीच एक लंबा या सामान्य युद्ध ताइवान से परे अन्य क्षेत्रों में भी फैल सकता है। यह पहले से ही तनावपूर्ण भारत-चीन भूमि सीमा को भी उत्तेजित कर सकता है।
- यह चीन, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय देशों की औद्योगिक क्षमता के एक बड़े हिससे को नष्ट कर सकता है, जिस पर दुनिया निर्भर करती है। यह अकल्पनीय परमाणु खतरे की वृद्धि का भी जोखिम रखता है।

■ भारत की दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय स्थिति में गिरावट:

- हालाँकि कोई भी संघर्ष स्वयं में वनिशकारी होगा, इसके परिणाम भारत की दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय स्थिति को और कमज़ोर कर सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन-सा पक्ष प्रबल सिद्ध होता है।
- एक सीमाति संघर्ष, जहाँ चीन को ताइवान के पास बल संकेंद्रित करने का सापेक्षिक लाभ प्राप्त होगा, ताइवान पर चीन की जीत और अमेरिका एवं उसके सहयोगियों की हार जैसे संभावित परिदृश्य में परिणत हो सकता है।
- यदि चीन, इस युद्ध के परिणामस्वरूप, क्षेत्र की प्रमुख सैन्य शक्तों के रूप में अमेरिका को वसिथापति कर देता है, तो यह क्षेत्र की संपूर्ण सुरक्षा संरचना को कमज़ोर कर देगा।

■ पड़ोस में हथियारों की होड़ को बढ़ावा:

- इस परिदृश्य में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी कम विश्वसनीय होगी, पड़ोसी देश अधिक हथियारों या आक्रामक मुद्राओं के साथ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकते हैं और चीन की सेना ह्दि महासागर सहित अन्य भूभागों में अपने अनर्थात्त प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिये स्वतंत्र होगी।
 - यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने का चीन का साहस भी बढ़ सकता है। हालाँकि भारत अमेरिका का निकट सहयोगी (ally) नहीं है, लेकिन अपने सैन्य आधुनिकीकरण और मोटे तौर पर सौम्य रणनीतिक माहौल के लिये अमेरिका पर निर्भर करता है।

बढ़ते संघर्ष को प्रबंधित कर सकने में भारत के पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

■ ताइवान स्ट्रेट में सैन्य संतुलन बनाए रखना:

- बीजिंग ताइवान के प्रति अपनी रणनीति में अंतरराष्ट्रीय कानून, आर्थिक लाभ की स्थिति और राजनीतिक प्रभाव जैसे विभिन्न साधनों का उपयोग करता है तथा जहाँ तक संभव हो सैन्य बलप्रयोग से बचता है। चीन लागत और व्यवधानों को न्यूनतम रखने तथा सैन्य कार्रवाई के लिये तब आगे बढ़ने का लक्ष्य रखता है जब उसे विश्वास हो कि जीत सुनिश्चित है।
 - ताइवान स्ट्रेट में संघर्ष रोकने के लिये सैन्य संतुलन महत्त्वपूर्ण है, लेकिन भारत जैसे देश बीजिंग को यह समझाने में भी योगदान दे सकते हैं कि सैन्य कार्रवाई करने की उसकी शर्तों की पुष्टि नहीं हो रही है।

■ विभिन्न नीति विकल्पों की खोज:

- भारत के पास छह प्रकार के नीति विकल्प उपलब्ध हैं: अंतरराष्ट्रीय कानून संबंधी तरक; आक्रामकता के विरोध में आख्यान का निर्माण; समन्वित राजनयिक संदेश; आर्थिक जोखिम कम करना; ताइवानी लोगों का समर्थन करने के लिये सक्रिय सूचना संचालन; और ह्दि महासागर में अमेरिकी सेना को सैन्य सहायता।
 - इनमें से प्रत्येक विकल्प को महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा के विभिन्न स्तरों पर समायोजित किया जा सकता है तथा उन्हें कई अन्य देशों द्वारा भी अनुकूलित एवं लागू किया जा सकता है।
- ये विकल्प, चीन-ताइवान विवाद पर उनके प्रभाव की परवाह किये बिना, भारत की भव्य रणनीतिक स्थिति को भी आगे बढ़ा सकते हैं:
 - इन नीतियों को लागू करने से, सबसे पहले और सबसे महत्त्वपूर्ण, चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में भारत को अधिक लाभ की स्थिति प्राप्त होगी।
 - ये विकल्प भारत को अमेरिका के साथ अपने सहयोग को गहरा करने के लिये अतिरिक्त अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे इसके राष्ट्रीय उत्थान को गति प्राप्त होगी।
 - ये भारतीय अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व के लिये, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच, एक व्यापक एजेंडा भी पेश करते हैं, जो अन्यथा अधिक व्यापक रूप से चीनी आक्रामकता को रोकने में निष्क्रिय या असंयमित सिद्ध होगा।

■ वन-चाइना नीति पर पुनर्विचार करना:

- भारत वन-चाइना नीति पर पुनर्विचार भी कर सकता है और मुख्य भूमि चीन के साथ अपने संबंध को ताइवान के साथ संबंध से पृथक कर सकता है। यह ऐसा ही होगा जैसे चीन अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना 'चीन-पाकसिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)' के माध्यम से भारतीय संवेदनशीलता की उपेक्षा करते हुए पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।

■ सहयोगात्मक दृष्टिकोण का पालन:

- भारत और अन्य शक्तियों को ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा करने के किसी भी चीनी प्रयास के विरुद्ध एक 'रेडलाइन' तय करनी होगी। ताइवान का मुद्दा केवल एक सफल लोकतंत्र के वनिश की अनुमति देने का नैतिक प्रश्न नहीं है या महज अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का प्रश्न नहीं है जहाँ विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के सिद्धांत का पालन किया जाता है।
 - वस्तुतः यह 'रेडलाइन' तय करना ताइवान के लिये नहीं, बल्कि ताइवान पर चीनी आक्रमण के भारत और शेष एशिया पर परिणाम के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

भारत के वसितारति राष्ट्रिय हति ताइवान के संबंघ में यथास्थिति बिनाए रखने के मज़बूत तरक प्रसतुत करते हैं। भारत के आर्थिक और सुरक्षा हतियों के कारण ताइवान पर कसि भी संघर्ष में उसके संलग्न होने की संभावना बहुत कम है। इस तरह के संघर्ष की लागत वनिशकारी होगी, जसिसे वैश्विक व्यापार प्रभावति होगा और संभावति रूप से व्यापक कषेत्रिय संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं। भारत ऐसे परदृश्य के उभार को रोकने के लयि वभिन्न नीतगित वकिल्पों का उपयोग कर सकता है, जसिमें अंतरराष्ट्रीय कानूनी तरक, राजनयिक संदेश, आर्थिक रणनीति, सूचना संचालन और हदि महासागर में अमेरिका को सैन्य समर्थन देना शामिल है।

अभ्यास प्रश्न: कषेत्रिय स्थरिता और राष्ट्रिय हतियों पर चीन-ताइवान संघर्ष के प्रभाव पर वचिर करते हुए इस संबंघ में भारत के रणनीतिक पहलुओं एवं नीतगित वकिल्पों की चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. शीत युद्ध के बाद के अंतरराष्ट्रीय परदृश्य के संदर्भ में भारत की लुक ईस्ट नीतिके आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजयि। (2016)

प्रश्न. "चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसयित को वकिसति करने के लयि उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है"। इस कथन के प्रकाश में उसके पडोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजयि। (2017)

प्रश्न: "संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।" वचिना कीजयि। (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/china-taiwan-conflict-1>

